

एनएससीएन (खापलांग) के साथ युद्ध वरिमा समाप्त करने का प्रयास ।

संदर्भ

- भारत-म्याँमार सीमा के उस पार स्थिति कई उग्रवादी समूह भारत वरिधी गतविधियाँ करते हैं । इन समूहों से नपिटने के लिये भारत म्याँमार को नेशनल सोशलसिट काउंसलि नागालैंड-(खापलांग) के साथ अपने युद्ध वरिमा संधि को रद्द करने को कह सकता है ।

प्रमुख घटनाक्रम

- भारत ने अपने सुरक्षा बलों के खिलाफ वभिनिन हमलों के लिये जिम्मेदार नेशनल सोशलसिट काउंसलि नागालैंड-(खापलांग) पर 2015 में प्रतबिध लगा दिया था ।
- गौरतलब है कि भारत ने अपनी सीमा से कुछ किलोमीटर दूर म्याँमार में स्थिति 20 से अधिक वदिरोही शविरिों की सूची म्याँमार को सौपा था, परन्तु म्याँमार सेना ने अपने कषेत्र में कसिी भी वदिरोही शविरि के अस्तित्व को नकार दिया था ।
- एसएस खापलांग नेशनल सोशलसिट काउंसलि नागालैंड-(खापलांग) के नेता थे । वे भारत में सर्वाधिक वांछति लोगों की सूची में शामिल थे । उनका नधिन 6 जून को हो गया था । उनकी मृत्यु के बाद, नेशनल सोशलसिट काउंसलि नागालैंड-(खापलांग) के वाइस चेयरमैन खांगो कोनीक को इस प्रतबिधति संगठन का नया प्रमुख चुना गया है ।
- म्याँमार और भारत दोनों जगहों पर नागा समुदाय का एक बड़ा हसिसा एसएस खापलांग का सम्मान करता था । अतः उनके नधिन का उनके संगठन के संचालन पर नशिचति रूप से प्रभाव पड़ेगा ।

संघर्ष वरिमा समझौता

- नेशनल सोशलसिट काउंसलि नागालैंड-(खापलांग) तथा म्याँमार के बीच संघर्ष वरिमा समझौता है । भारत म्याँमार से इस समझौते को रद्द करने और उनके नेताओं को भारत को सौपने का अनुरोध करना चाहता है ।
- म्याँमार में न केवल एनएससीएन-के, बल्कि अन्य वदिरोही समूह भी अपने शविरिों का संचालन कर रहे हैं । इन वदिरोही समूहों ने सीमा के दोनों कनारों पर एक नेटवर्क का गठन किया है, जो हथियारों की तस्करी और भारत वरिधी गतविधियों को संचालति करते हैं । भारत चाहता है कि म्याँमार उनके शविरिों को नषट कर दे, इसके लिये भारत उनके ठकानों का जानकारी देने को तैयार है ।
- मार्च 2015 में नेशनल सोशलसिट काउंसलि नागालैंड-(खापलांग) ने एकतरफा युद्ध वरिमा का उल्लंघन किया था, जिसमें 4 जून को मणपुरि के चंदेल ज़िले में सेना के काफलि पर हमले सहति कई हसिक घटनाएँ हुई थी, जहाँ सेना के 18 जवान मारे गए थे । उसके प्रतशिोध में भारतीय सेना ने म्याँमार सीमा पर एक अभियान चलाया था और बड़ी संख्या में उग्रवादियों के शविरिों को नषट कर दिया था ।

पैनल का गठन

- भारत के गृह मंत्री राजनाथ सहि ने म्याँमार सीमा पर मुक्त आवाजाही के दुरुपयोग को रोकने के वभिनिन तरीकों की जाँच के लिये एक समतिगठति की है । दोनों देशों की सीमा पर मुक्त आवाजाही का सीमापार के उग्रवादियों और अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है । वे भारत में प्रवेश कर अपराध करते हैं एवं पुनः अपने सुरक्षति ठकानों पर भाग जाते हैं ।
- भारत और म्याँमार के बीच 1,643 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश (520 कमी), नागालैंड (215 कमी), मणपुरि (398 कमी) और मजोरम (510 कमी) की सीमा सटी हुई है । दोनों देशों की सीमा के आर-पार 16 किलोमीटर तक स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति है ।